

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय – हिंदी कक्षा – 05 ASSIGNMENT – जुलाई (2021-22)

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

अमित की राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर दालें, चावल और आटे से लेकर नमकीन, बिस्कुट आदि सब कुछ मिलता था। ऐसी कोई चीज़ न होगी जो उसकी दुकान पर न मिलती हो। एक बार दुकान पर रखी शहद की बोतल उलट गई। चारों ओर से कई मक्खियाँ उस बिखरे शहद पर टूट पड़ीं। सब कुछ भूलकर वे शहद चाटने लगीं। वे शहद चाटने में इतनी मगन हो गईं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके पैर शहद में चिपक गए। अब उनके लिए उड़ना मुश्किल हो गया। उन्हें अपने लालच पर पछतावा होने लगा।

- (क) अमित की दुकान पर मिलने वाली कोई-दो चीज़ों के नाम लिखें।
- (ख) मक्खियों के लिए उड़ना क्यों मुश्किल हो गया था ?
- (ग) उपर्युक्त गद्यांश में से कोई-चार संज्ञा शब्दों को छाँटकर लिखिए।
- (घ) 'मुश्किल' शब्द के कोई-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।

प्रश्न 2 निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिह्न लगाकर रिक्त स्थान भरें-

- (क) मोहन ----- मैच जीता।
- (ख) ----- यह क्या हुआ।
- (ग) राधिका गुड़िया ----- खेलती है।
- (घ) राहुल ----- घड़ी नई है।
- (ङ) चिड़िया पेड़ ----- बैठी थी।

प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए –

- (क) कमल
- (ख) वन

प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए –

- (क) ससुर (ख) पंडित (ग) ऊँट (घ) शिष्य

प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए –

- (क) रमेश बाज़ार से जाकर दवाई ले आओ।
- (ख) बच्चे विद्यालय जा रहे हैं।

(ग) पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं।

प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

- (क) ताड़ के दूध को क्या कहते हैं व यह कैसे लाभकारी है ?
- (ख) कौन-सा पेड़ बगीचे में खूब सजता है ?
- (ग) जो समय हाथ से गँवाता है वह क्या पाता है ?
- (घ) गुलीवर की चौकसी में कितने आदमी लगाए गए थे ?
- (ङ) सागर तट के किसी एक पेड़ के विषय में बताइए।

प्रश्न 7 अच्छी संगति का महत्त्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखें।

प्रश्न 8 दिए गए संकेतों के आधार पर 'महँगाई' विषय पर 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए -

असमर्थता , व्यापार , मध्यमवर्ग , धनिक वर्ग , कर्मचारी आंदोलन, हड़ताल ,
जमाखोरी , दफ्तर , वैज्ञानिक , चंदा